

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य 28.01.2021

थाना रोजा पुलिस ने किया शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार,
चोरी की 09 मोटरसाइकिल बरामद ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार श्री संजय कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्वेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन मे वाहन चोरी के अपराधो की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं के अनावरण कर वाहन बरामद किये जाने हेतु चलाये गये सघन अभियान मे प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व मे रोजा पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 27.01.21 की रात्रि 21.05 बजे थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिसौआ मे अभियुक्त नूरमोहम्मद की मोटरसाइकिल रिपयेर की दुकान पर छापेमारी कर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त नूरमोहम्मद को गिरफ्तार किया गया । पूछताछ करने पर अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम सिसौआ मे अभियुक्त के घर के पास से चोरी की अतिरिक्त 08 मोटरसाइकिल बरामद की गयी है । बरामद कुछ मोटरसाइकिलो के चेसिस नम्बर मिटा दिये गये है तथा कुछ मोटरसाइकिलों के पार्ट्स नही है । इस संबंध मे थाना पर मु0अ0सं0 37/21 धारा 411/420/647/468/471 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है । ट्रेस करने पर एक मोटरसाइकिल नं0 UP34G0093 जो डेढ वर्ष पूर्व थाना कोतवाली क्षेत्र से चोरी की गयी थी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 380/19 धारा 380 IPC) बरामद की गयी तथा अन्य मोटरसाइकिलो को भी ट्रेस किया जा रहा है ।

उक्त अभियुक्त की मोटरसाइकिल रिपयेरिंग की दुकान है जिसमे यह चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स निकालकर अन्य मोटरसाइकिल मे लगाकर बेच देता था । अभियुक्त से पूछताछ के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यो के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. नूर मोहम्मद पुत्र सज्जाद नि0 सिसौआ थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1- चोरी की कुल 09 मोटरसाइकिल ।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0-37/2021 धारा 411/420/467/468/471 IPC

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 गुड्डू सिंह थाना रौजा शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 संजय कुमार शुक्ला थाना रौजा शाहजहाँपुर
3. हे0का0 196 महेश यादव थाना रौजा शाहजहाँपुर
4. का0 1402 मोहसीन उस्मानी थाना रौजा शाहजहाँपुर
5. का0 1906 मयंक थाना रौजा शाहजहाँपुर